



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 चैत्र, 1941 (श०)

संख्या- 290 राँची, सोमवार, 1 अप्रैल, 2019 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

निदेश

22 मार्च, 2019

सं.576/3/ईवीएम/2019/एसडीआर/खण्ड-II:-- यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 क यह उपबंधित करती है कि वोटिंग मशीनों द्वारा मतदान और मतों का अभिलेखन ऐसी रीति, जैसी कि निर्धारित की जाए, से ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करें; और

2. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के परन्तुक के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथाअनुमोदित डिजाइन वाले ड्राप बॉक्स सहित एक प्रिंटर, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मशीन के साथ भी जोड़ा जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निदेश दिया जाए; और

3. यतः, आयोग ने भारत के सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा बिहार, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के 37 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों

(अनुलग्नक-1 के अनुसार) की परिस्थितियों पर विचार किया है, और आयोग संतुष्ट है कि उपर्युक्त संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करवाने के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तथा पेपर ट्रेल [वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी)] मुद्रित करने के लिए प्रिंटर उपलब्ध हैं, मतदान कार्मिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा पेपर ट्रेल (इसमें इसके उपरान्त वीवीपीएटी प्रिंटर के रूप में उल्लिखित) के लिए प्रिंटर का दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों एवं वीवीपीएटी प्रिंटर्स की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं।

4. अतः, अब भारत निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा लोक सभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन, 2019 में सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, राज्य विधान सभाओं के वर्तमान साधारण निर्वाचन में आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा बिहार, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के 37 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों (अनुलग्नक-5 के अनुसार), जहां आयोग द्वारा घोषित अनुसूची के अनुसार दिनांक 10.03.2019, 13.03.2019 और 14.03.2019 को उप-निर्वाचन किए जा रहे हैं, जहां मत निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन निर्धारित रीति से तथा इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुपूरक अनुदेशों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपीएटी प्रिंटर के माध्यम से डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे, को विनिर्दिष्ट करता है।

5. आयोग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा यथा-विकसित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ड्रॉप बॉक्स सहित प्रिंटर (वीवीपीएटी प्रिंटर्स), जिसे उपर्युक्त सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतों को डालने और रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग करने हेतु उक्त वोटिंग मशीनों के साथ जोड़ा जाएगा, के डिजाइन को भी एतद्वारा अनुमोदित करता है।

आदेश से,

एन.टी. भूटिया,
सचिव।

अनुबंध-1

क्रम सं.	राज्य	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम
1.	बिहार	212	डिहरी
2.	बिहार	237	नवादा
3.	गोवा	1	मांद्रे
4.	गोवा	5	म्हापसा
5.	गोवा	22	सिरोडा
6.	गुजरात	21	उंझा
7.	गुजरात	64	धांगधा
8.	गुजरात	77	जामनगर ग्रामीण
9.	गुजरात	85	माणावदर
10.	गुजरात	91	तलाला
11.	मध्य प्रदेश	126	छिन्दवाड़ा
12.	महाराष्ट्र	48	काटोल
13.	मेघालय	48	सेल्सेल्ला (अ.ज.जा.)
14.	मिजोरम	15	एजवाल पश्चिम-1 (अ.ज.जा.)
15.	नागालैण्ड	26	औग्लेनडेन (अ.ज.जा.)
16.	पुडुचेरी	9	थट्टानचावाडी
17.	तमिलनाडु	5	पूनामल्लै (अ.जा.)
18.	तमिलनाडु	12	पेराम्बुर
19.	तमिलनाडु	33	थिरुपोरूर
20.	तमिलनाडु	39	शोलिंगुर
21.	तमिलनाडु	46	गुडियाट्टम (अ.जा.)
22.	तमिलनाडु	48	अम्बुर
23.	तमिलनाडु	55	होसुर
24.	तमिलनाडु	60	पाप्पिरेडिडप्पट्टी
25.	तमिलनाडु	61	हरूर (अ.जा.)

26.	तमिलनाडु	130	निलाकोटेई (अ.जा.)
27.	तमिलनाडु	168	तिरुवारूर
28.	तमिलनाडु	174	थन्जावुर
29.	तमिलनाडु	187	मानामदुरई (अ.जा.)
30.	तमिलनाडु	198	अन्डीपट्टी
31.	तमिलनाडु	199	पेरियाकुलम (अ.जा.)
32.	तमिलनाडु	204	सत्तुर
33.	तमिलनाडु	209	पारामाकुडी (अ.जा.)
34.	तमिलनाडु	213	विलाथीकुलम
35.	उत्तर प्रदेश	138	निघासन
36.	पश्चिम बंगाल	88	कृष्णागंज (अ.जा.)
37.	पश्चिम बंगाल	176	उलुबेरिया पूर्व

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एल० खियांगते,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-अपर मुख्य सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

DIRECTION

22nd March, 2019

No. 576/3/EVM/2019/SDR-Vol.II:- Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency or constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case, specify; and

2. Whereas, as per the proviso to Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, a Printer with a drop box of such design, as may be approved by the Election Commission of India, may also be attached to voting machine for printing a paper trail of the vote, in such constituency or constituencies or parts thereof as the Election Commission of India may direct; and

3. Whereas, the Commission has considered the circumstances in all the Parliamentary Constituencies of India, all the Assembly Constituencies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha & Sikkim and in the 37 Assembly Constituencies (as per Annexure-I) of Bihar, Goa, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Puducherry, Tamil Nadu, Uttar Pradesh & West Bengal, and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines and Printers for printing Paper Trail [Voter Verifiable Paper Audit Trail(VVPAT)] are available for taking the poll in the abovementioned Parliamentary/Assembly Constituencies, the polling personnel are well trained in efficient handling of the Electronic Voting Machines and Printers for Paper Trail (hereafter referred to as 'VVPAT Printers') and the electors are also fully conversant with the operation of the Electronic Voting Machines and the VVPAT Printers;

4. Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of its powers under the said Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, and Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, hereby specifies all the Parliamentary Constituencies at the current General election to the House of the People, 2019, all the Assembly Constituencies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha & Sikkim at the current General Election to the State Legislative Assemblies and the 37 Assembly Constituencies (as per Annexure-I) of Bihar, Goa, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Puducherry, Tamil Nadu, Uttar Pradesh & West Bengal, from where bye-elections are being held, as per the schedule announced by the Commission on 10-03-2019, 13-03-2019 & 14-03-2019 as the constituencies in which the votes, shall be given and recorded by means of Electronic Voting Machines and VVPAT printers in the manner prescribed, under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Commission from time to time on the subject.

5. The Commission also hereby approves the design of the Electronic Voting Machine and the Printer with the drop box (the VVPAT Printers) as developed by the Bharat Electronics Ltd., Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd. Hyderabad, which shall be attached to the said machines, to be used for the giving and recording of votes in all the Constituencies.

By Order,

N.T.BHUTIA,
Secretary.

Annexure-I

SL.NO.	STATE	AC NO.	NAME OF AC
1.	Bihar	212	Dehri
2.	Bihar	237	Nawada
3.	Goa	1	Mandrem
4.	Goa	5	Mapusa
5.	Goa	22	Siroda
6.	Gujarat	21	Unjha
7.	Gujarat	64	Dhrangadhra
8.	Gujarat	77	Jamnagar Rural
9.	Gujarat	85	Manavadar
10.	Gujarat	91	Talala
11.	Madhya Pradesh	126	Chhindwara
12.	Maharashtra	48	Katol
13.	Meghalaya	48	Selsella (ST)
14.	Mizoram	15	Aizawl West-I (ST)
15.	Nagaland	26	Aonglenden (ST)
16.	Pudducherry	9	Thattanchavady
17.	Tamil Nadu	5	Poonamallee (SC)
18.	Tamil Nadu	12	Perambur
19.	Tamil Nadu	33	Thiruporur
20.	Tamil Nadu	39	Sholingur
21.	Tamil Nadu	46	Gudiyattham (SC)
22.	Tamil Nadu	48	Ambur
23.	Tamil Nadu	55	Hosur
24.	Tamil Nadu	60	Pappireddippatti
25.	Tamil Nadu	61	Harur (SC)

26.	Tamil Nadu	130	Nilakkottai (SC)
27.	Tamil Nadu	168	Thiruvavur
28.	Tamil Nadu	174	Thanjavur
29.	Tamil Nadu	187	Manamadurai (SC)
30.	Tamil Nadu	198	Andipatti
31.	Tamil Nadu	199	Periyakulam (SC)
32.	Tamil Nadu	204	Sattur
33.	Tamil Nadu	209	Paramakudi (SC)
34.	Tamil Nadu	213	Vilathikulam
35.	Uttar Pradesh	138	Nighasan
36.	West Bengal	88	Krishnaganj (SC)
37.	West Bengal	176	Uluberia Purba
